



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 253 राँची, गुरुवार,

15 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....
आदेश

10 मार्च, 2018

संख्या-03नि0पं0-36/2016 रा0नि0आ0 338 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है

कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदयधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, साहेबगंज के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	साहेबगंज	X साहेबगंज-01	संत गोप, ग्राम-जयन्ती ग्राम, महादेवगंज, पं०-गंगा प्र०प० मध्य, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		X साहेबगंज-02	ज्योति हेम्ब्रम, ग्राम-द० करमटोला, पं०-बड़तल्ला मंडरो, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		X साहेबगंज-03	तुस बास्की, ग्राम-रानीबथान, पं०-बीरबल काँदर, प्रखण्ड-बोरियो, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		X साहेबगंज-03	भीमा हाँसदा, ग्राम-मंगरूटीकर, पं०-पोआल, प्रखंड-बोरियो, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		X साहेबगंज-03	मुकेश मुन्डा, ग्राम-अदरो, पं०-बड़ा तौफिर, प्रखंड-बोरियो, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

6	X साहेबगंज-03	राजेश सोरेन, ग्राम-पोआल, पं0-पोआल, प्रखंड-बोरियो, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7	X साहेबगंज-04	डाक्टर हाँसदा, ग्राम-जादुटोला धोगड़ा, पं0-खैरबा, बोरियो, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8	X साहेबगंज-06	देव सोरेन, ग्राम-कुसमा संथाली, पं0-कुसमा संथाली, प्रखंड-बरहेट, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9	X साहेबगंज-06	बालु हाँसदा, ग्राम-मुगदी, पं0-कुसमा सं0, प्रखंड-बरहेट, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	X साहेबगंज-06	मुचरू टुडू, ग्राम-गोपलाडीह, पं0-गोपलाडीह, प्रखंड-बरहेट, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	X साहेबगंज-06	राजाराम मरांडी, ग्राम-बड़ागढ़ी, पं0-कदमा, प्रखंड-बरहेट, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	X साहेबगंज-06	सुनीराम हाँसदा, ग्राम-कुसमा छप्परटोला, पं0-कुसमा सं0, बरहेट, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	X साहेबगंज-08	मैसी पहाड़िन, ग्राम-बेगचुरी पहाड़, पं0-भतभंगा सं0, प्रखंड-तालझारी, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	X साहेबगंज-08	सुशीला मालतो, ग्राम-भतभंगा पहाड़, पं0-भतभंगा संथाली, प्रखंड-तालझारी, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018

15	X साहेबगंज-09	नन्दरानी देवी, ग्राम-मलाहीटोला, पं0-सैदपुर, प्रखंड-राजमहल, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	X साहेबगंज-09	सुलोचना देवी, ग्राम-बड़ा खुटहरी, पं0-खुटहरी, प्रखंड-राजमहल, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	X साहेबगंज-10	अखलारी, ग्राम-तीनपहाड़, पं0-तीनपहाड़, प्रखंड-राजमहल, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	X साहेबगंज-11	प्रतिमा देवी, ग्राम-फूलबड़िया, पं0-लखीपुर, प्रखंड-राजमहल, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	X साहेबगंज-11	महचम बीबी, ग्राम-हाजी बादल टोला, पं0-लखीपुर, प्रखंड-राजमहल, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	X साहेबगंज-11	रिजिया बीबी, ग्राम-हिनसिन टोला, पं0-प0नारायणपुर, प्रखंड-राजमहल, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	X साहेबगंज-12	एकतारा बीबी, ग्राम-दरगाडांगा, पं0-पतौड़ा, प्रखंड-उधवा, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	X साहेबगंज-12	चिन्ता देवी, ग्राम-मस्तापुर, पं0-सुतियारपाड़ा, प्रखंड-उधवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	X साहेबगंज-12	पिंकी कुमारी, ग्राम-जोंका, पं0-जोंका, प्रखंड-उधवा, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

24	X साहेबगंज-13	उलसुम बीबी, ग्राम-अजुलटोला, पं0-उ0 पलासगाछी, प्रखंड-उधवा, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	X साहेबगंज-13	राबीया बीबी, ग्राम-पियारपुर, पं0-द0 पियारपुर, प्रखंड-उधवा, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	X साहेबगंज-14	हुमायुन शेख, ग्राम-सुवेदार टोला, प्राणपुर, पं0-प0 प्राणपुर, प्रखंड-उधवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	X साहेबगंज-15	सुसाना हाँसदा, ग्राम-सालटी पोखर, पं0-मोहनपुर, प्रखंड-उधवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	X साहेबगंज-17	मीरू सोरेन, ग्राम-लखीपुर, पं0-लखीपुर, पो0-लखीपुर, प्रखण्ड-पतना, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	X साहेबगंज-18	सुरेश कुजूर, ग्राम-ढातापाड़ा, पं0-मयूरकोला, प्रखंड-बरहरवा, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	X साहेबगंज-19	अजय पासवान, ग्राम-झिकटिया, पो0-बरहरवा, पं0-झिकटिया, प्रखंड-बरहरवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	X साहेबगंज-19	पवन कुमार पप्पू, ग्राम-कुशवाहा टोला, पं0-रतनपुरा, प्रखंड-बरहरवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	X साहेबगंज-19	राजाराम रजक, ग्राम-रानीग्राम, पं0-रिसौड़, प्रखंड-बरहरवा, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018

33	X साहेबगंज-19	राजेश कुमार दास, ग्राम-हरिजनटोला, पं0-झिकटिया, प्रखंड-बरहरवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	X साहेबगंज-21	मो0 गौफरान अली, ग्राम-पलासबोना, पं0-पलासबोना, प्रखंड-बरहरवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	X साहेबगंज-01	माया देवी, ग्राम-रामपुर, पं0-हर प्रसाद, प्रखंड-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36	X साहेबगंज-02	संगीता हाँसदा, ग्राम-फूलो लक्ष्मी, मंडरो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37	X साहेबगंज-03	सेलिना मडैया, ग्राम-बड़ा रक्सो, बोरियो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	X साहेबगंज-11	ईजाहर बीबी, ग्राम-हाजी बादल टोला, पं0-समसपुर, प्रखंड-राजमहल, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	X साहेबगंज-13	संगीता बीबी, ग्राम-पियारपुर, पं0-द0 पियारपुर, प्रखंड-उधवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	X साहेबगंज-14	संजय कुमार मंडल, ग्राम-राधानगर, पं0-राधानगर, प्रखंड-उधवा, साहेबगंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० /-(अस्पष्ट),

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।
